

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 जुलाई 2014—आषाढ़ 30, शक 1936

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्र. एफ 22-05-2008-आठ.—परिवहन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त 2013, 6 मार्च, 2014 एवं 10 मार्च, 2014 के तारतम्य में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्द्वारा, स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग एवं प्रेक्षकों को अस्थायी रूप से यान के अग्र शीर्ष भाग पर, पीली बत्ती प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमोद अग्रवाल, प्रमुख सचिव।